

ICRA Limited

May 29, 2017

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Notice for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund

Please find enclosed copies of the Notice for attention of the shareholders of the Company, in respect of transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund, published in the following newspapers on May 28, 2017:

1. Financial Express

2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

RATING

RESEARCH

INFORMATION

FE SUNDAY



ICRA Limited

ICRA Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Pegistered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.: +91-11-23357940-45 Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE

(For transfer of equity shares of ICRA Limited to Investor Education and Protection Fund)

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective date September 7. 2016 and subsequent amendments effective February 28, 2017.

In continuation to the newspaper advertisement published by ICRA Limited ("the Company") on November 25, 2016, members may note that the dividend for the financial year 2008-09, which remain unclaimed for seven consecutive years, has already been transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In terms of the Rules the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to IEPF shall be deemed to be May 31, 2017 or any other date as may be notified pursuant to amendment to the Rules. Further in terms of the Rules all benefits accruing on such shares viz. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the rights issue shall also be credited to IEPF.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of such members and shares due for transfer to IEPF on its website at www.icra.in. The members are requested to refer to the Company's website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to IEPF.

Members may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF after following the procedure prescribed by the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members, the Company shall with the view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to IEPF by the due date as stipulated in the Rules.

In case the members have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

Link Intime India Pvt. Ltd 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Ind. Area, Ph-I, New Delhi-110028

Phone: +91 11 4141 0592; Fax: +91 11 4141 0591 Fmail: delhi@linkintime.co.in

ICRA I Imited Building No. 8, 2nd Floor, Tower A, DLF Cyber City, Phase II. Gurgaon-122002 Phone: +91 112 4545300 Email: investors@icraindia.com

The above information is available on the website of the Company (www.icra.in).

For ICRA Limited

Place : Gurgaon Date : May 26, 2017

(S. Shakeb Rahman) Company Secretary & Compliance Officer ade Extension, biog 10, Asna Nagar Benind Sai Dham temple, Kandivali (E) Mumbai-400101 (MH)

E-mail: Compliance@acirealty.co.in, Website: www.acirealty.co.in, Tel. No.: +91-22-40166323 Extract of Aaudited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March,2017 (Ra. In Lacs)

				And the second second second
Particulars	Quarter ending 31.03.2017	Quarter ending 31.03.2016	Year ended 31/03/2017	Year ended 31/03/2016
Total income from operations (net)	268.15	2.55	1403.72	54.59
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	3.76	(16.00)	20.79	1.41
Net Profit / (Loss) for the period aftertax				
(after Extraordinary items)	3.76	(16.00)	20.79	1.41
Equity Share Capital	1,104.91	1104.909	1104.909	1104.909
Reserves (excluding Revaluation Reserve as		12.		
shown in the Balance sheet of previous year)	530.38	509.60	530.38	509.60
Earnings Per Share (before extraordinary items)				
(of Rs.1/- each)				
Basic:	0,0,0	(0.01)	0.02	0.00
Diluted:	0.00	(0.01)	0.02	0.00
Earnings Per Share (after extraordinary items)				
(of Rs.1/- each)				1 1 1
Basic:	0.00	(0.01)	0.02	0.00
Diluted:	0.00	(0.01)	0.02	0.00

- 1) The above financial results for the quarter and year ended 31 st march 2017 reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Director at its meeting held on 26.05.2017.
- The above is extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Result are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and also on the company's website www.acirealty.co.in
- Previous year / quarter figures have been regrouped/rearranged where necessary.

By order of the Board of Directors For Acl Infocom Limited

Place : Mumbai

Date : May 27, 2017

Sd/-Director

Ī	Sub-total shareholder's funds	384625424	348891181	(LODR) Regulations, 2015. The information presented above is
	2. Share application money pending allotment	***		extracted from the audited financial statements. 2. The Board of directors have
	3. Minority interest*			recommended a final dividend of Rs. 2.25 per equity shares
	4. Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Defered tax liability (c) Other long term liabilities (d) Long term provisions Sub-total-non-current liabilities	63657929 32734723 96392652	3238429 29617520 32855949	(22.50%) of the face value of Rs. 10/- each for the Financial year 2016-17 subject to the approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting. 3. In terms of SEBI Circular
	5. Current Liabilities (a) Short-term borrowings (b) Trade Payables (c) Other current liabilites (d) Short-term provisions Sub-total-current liabilites	164681637 199337638 44305047 52746658 461070980	194929087 173156653 17278263 52587896 437951899	CIR/CFD/CMD56/2016 dated May 27, 2016, the company hereby declares that the Auditors have issued Audit Report with unmodified opinion on audited financial results for the quarter & year ended March 31, 2017.
	TOTAL-EQUITY AND LIABILITES	942089056	819699029	4. The disclosures under Accounting Standard No 17
	B. ASSETS 1. Non-current assets (a) Fixed assets (b) Goodwill on consolidation* (c) Non-current investments (d) Deferred tax assets (net) (e) Long-term loans and advances	355545241 127617 13432453	273262932 137617	segment reporting are not required to be made, the Company is operating only in one business segment viz manufacturing of fasteners. 5. Previous year figures have been re-arranged/re-grouped wherever necessary, to confirm to this period classification.
	(f) Other non current Assets	351361 369456672	533417 287311619	6. The above financial results
	Sub-total-Non-current assets 2. Current assets (a) Current investments (b) Inventories (c) Trade Receivables (d) Cash and cash equivalents (e) Short-term loans and	258130226 202822739	249849931 201705832 19840698	have been filed with the Stock Exchange and are also available on the company's website at www.mohindra.asia.
	advances (f) Other current assets	76494013 5197908	59922740 1068209	
	Sub-total current assets	572632384	532387410	*
	TOTAL ASSETS	942089056	819699029	

Date: 27.05.2017

Place: New Delhi

Sd/-Sunll Mishra (Chief Financial Officer)

For & on behalf of the board Deepak Arneia (Managing Director & CEO)

DIN 00006112



आईसीआरए लिमिटेड

कॉपॅरिट पहचान सं. (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749 **पंजीकृत कार्यालय:** 1105, कैलाश बिल्डिंग, 11वां तल, 26, कस्त्र्खा गांधी मार्ग. नई दिल्ली-110001, **टेलीफोन नं.**: +91-11-23357940-45 वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईडी: investors@icraindia.com

(निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में आईसीआरए लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का अंतरण) यह सुचना कॉर्पेरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसुचित 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों और 28 फरवरी, 2017 से प्रभावी अनुवर्ती संशोधनों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

आईसीआरए लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा 25 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित समाचारपत्र विज्ञापन के क्रम में, सदस्यगण कृपया नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश, जो निरंतर सात वर्षों के लिए अदावाकृत है, उसे पहले ही निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि ("'**आईईपीएफ**") को अंतरित कर दिया गया है। नियमों के अनुसार ऐसे शेयरों (जिन पर निरंतर सात वर्षों से लाभांश आदावाकृत है) को आईपीएफ में अंतरण की देय तिथि 31 मई, 2017 या अन्य कोई तिथि जो नियमों के संशोधन के अनुसरण में अधिसूचित की जा सकती है, मानी जाएगी। इसके अलावा, नियमों के संदर्भ में, राइट्स इश्यू को छोड़कर ऐसे शेयरों पर उपार्जित लाभ जैसे बोनस शेयर, स्पिलिट, समेकन, आंशिक शेयर आदि भी आईईपीएफ के पास जमा कर दिया जाएगा।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कम्पनी ने ऐसे सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके इक्विटी शेयर(रों) उचित कार्यवाही के लिए नियमों के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के योग्य है/हैं।

कम्पनी ने आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हेत् देय शेयरों और सदस्यों को पूरा विवरण अपनी वेबसाइट www.icra.in पर अपलोड किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ में अंतरित किए जाने वाले शेयरों और भगतान न लिए गए लाभांश का विवरण कम्पनी की वेबसाइट से सत्यापित करा लें। सदस्यगण कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश और शेयरों पर उपार्जित सभी लाभ, यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संबंध में उन्हें वापिस लेने का कोई भी दावा नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आयईपीएफ के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि सदस्यों से इक्विटी शेयरों के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए नियमों में विनिर्दिष्ट देय तिथि तक ऐसे शेयर आईईपीएफ में अंतरित कर देगी। संबंधित विषय और नियमों पर किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण नीचे दिए गए पते पर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट औ/या कम्पनी के पास सम्पर्क कर सकते है।

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. 44, कम्युनिटी सेन्टर, दूसरा तल नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110028 फोन: +91 11 4141 0592 फैक्स: +91 11 4141 0591 ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

आईसीआरए लिमिटेड बिल्डिंग नं. ८, दूसरा तल, टॉवर-ए, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुड़गांव-122002 फोन: +91 112 4545300 ई-मेल: investors@icraindia.com

आईसीआरए लिमिटेड के लिए

(एस. शाकेब रहमान)

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.icra.in).

स्थान : गुडगांव दिनांक : 26 मई, 2017 कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी SMART CAPITAL SERVICES LIMITED

Regd Off.: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Tel.: 011-65360036, Email ID: smartcap.delhi@gmail.com, Website: www.smartcapitalservices.in, CIN: L74899DL1994PLC059877 Extracts of the Standalone Audited Financial Results

03 30	For the Quarter and year ended March 31, 2017 (Rs. in lacs)					
SI. No.	Particulars	Quarter Ending	Year to date Figures	Correspond- ing 3 months ended in the previous year		
		31.03.2017 (Audited)	31.03.2017 (Audited)	31.03.2016 (Audited)		
1.	Total income from operations	20.19	79.04	7.99		
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.13	1.81	2.77		
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.13	1.81	2.77		
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.55	1.23	1.90		
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]					
6.	Equity Share Capital	450.12	450.12	450.12		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	(385.12)	(385.12)	(385.12)		
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted:	0.28 0.28	0.03 0.03	0.04 0.04		

The Standalone Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2017 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 26.05.2017. The Standalone Audited Quarterly Financial Results along with Statement of Assets and Liabilities have been subjected to Auditors' Report pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 received by the Statutory Auditors of

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Audited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and Website of the Company i.e.

(www.smartcapitalservices.in) The information relating to Total Comprehensive Income and other comprehensive income are not furnished as Ind AS is not yet applicable to the company.

> For and on behalf of the Board of Directors Smart Capital Services Limited Pawan Kumar Mittal

(Director) DIN: 00749265



MEDICAMEN BIOTECH LTD.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019 (CIN: L74899DL1993PLC056594) Website: www.medicamen.com Email id: cs@medicamen.com

Quarter Ended

Extracts of Standalone Audited Financial Results for the Financial Year and Quarter Ended 31.03.2017

(Rs. in lacs)

Year Ended

	Quarter	Ended	rear Ended		
Particulars	31.03.2017 (Audited)	31.03.2016 (Audited)	31.03.2017 (Audited	31.03.2016 (Audited)	
Total Income from operations	2228.35	1798.35	8245.57	6727.59	
Net profit/ (Loss) from ordinary activities before tax)	157.67	216.25	635.87	71.19	
Net profit/ (Loss) for the period after tax (after	33			0	
Extraordinary items)	115.06	181.72	516.01	48.09	
Equity Share Capital	1051.86	999.36	1051.86	999.36	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as Shown					
in the Balance Sheet of previous year)	1549.03	791.52	1549.03	791.52	
Earning Per Shares (before extraordinary items)					
of /-each)					
Basic :	1.10	1.83	4.95	0.48	
Diluted:	1.10	1.83	4.95	0.48	
Earning Per Shares (after extraordinary items)					
of /-each)					
Basic :	1.10	1.83	4.95	0.48	
Diluted:	1.10	1.83	4.95	0.48	
NOTES:					
	4 114 0	144		1 1 11	

The above results after being reviewed by the Audit Committee were taken on record by the Board at its Meeting held on 27th May, 2017.

The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary.

The company operates in single segment, viz. Pharmaceutical Formulations. The full format of the Quarter & Yearly Results are available on the website of the Company & BSE

> For & on behalf of Board of Directors Medicamen Biotech Limited Rahul Bishnoi

Director DIN: 00317960

बैक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 9वाँ तल, बैंक ऑफ् बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23448840, मो.- 9560090629, ई—मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई—नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिसूचना 54) और नियमों के अधीन अचल प्रत्याभृत आस्तियों की बिक्री हेतु https://bob.auctiontiger.net के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रस्ताव आमंत्रित हैं। निम्नांकित कर्जदारों से बैंक ऑफ बड़ौदा के निम्नांकित प्रत्याभूत

Place: New Delhi

Date: 26.05.2017

	ं की वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरप न्तर्गत निम्नवर्णित प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री * है)				
क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि प्रस्ताव में सुघार हेतु राशि	ई—नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख
1	मैसर्स के.एम. डॉयमण्ड प्रा. लि. जिसका पंजीकृत कार्यालयः 2439/10, अजमल खान रोड, बिडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली—110005 निदेशकः 1) श्री मनोज सोनी, पताः 52/62 रामजस रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005 2) श्रीमती सुमन सोनी, पताः 52/62 रामजस रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005 गारंटर : 1) श्री मनोज सोनी, पताः उपरोक्तानुसार 2) श्रीमती सुमन सोनी, पताः उपरोक्तानुसार 3) श्री दीपक गुप्ता, पताः 52/45, ब्लॉक—52, रामजस रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005	भूतल पर दुकान, बिना छत / टैरेस के अधिकार के, क्षेत्रफल 485.75 वर्ग फीट, जोकि प्रा नं. 2 के भाग का हिस्सा क्षेत्रफल 750.75 वर्ग फीट, भूतल, लीज़ होल्ड सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 2439 वार्ड नं. XVI ब्लॉक एम, गली नं. 10, खसरा नं. 334, अजमल खान रोड, बिडन पुरा, करोल बाग, दिल्ली—110005 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुमन सोनी के नाम पर है।	₹ 15.50 लाख ₹ 0.50 लाख	16-06-2017 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	₹ 9,36,33,551.60 दिनांक 01.01.2015 से भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार 06-01-2015
2	मैसर्स अक्षज़ ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः	फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 1/9506, प्लॉट नं. 44, भूतल, खसरा नं. 1252/598/389 और 1276/390, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, आबादी वेस्ट रोहतास नगर. नवीन शाहदरा, गाँव	₹ 4.80 लाख	16-06-2017 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे	Rs. 4,34,94,573.00 और भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट

वस्ट राहतास नगर, नवान शाहदरा, गाव उत्धनपुर, ईलाका शाहदरा, दिल्ली— ₹ 0.25 लाख की धारा 13(2) के अंतर्गत 1/9507, गली नं. ८, वेस्ट रोहतास नगर, जारी नोटिस के अनुसार शाहदरा, दिल्ली 110032, यह सम्पत्ति मैसर्स अक्षज ज्वैल्स निदेशकों गारंटर्सः प्रा. लि. के नाम पर है। 14-01-2015 1) श्री दिलीप चुरानियां रिहायशी फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 1/9506, ₹ 46.00 लाख Rs. 4,34,94,573.00 16-06-2017 2) श्रीमती पूनम चुरानियां प्लॉट नं. 44, प्रथम तल, खसरा नं. और भविष्य का ब्याज एवं ₹ 4.60 लाख दोनों निवासी का पता उपरोक्तानुसार को पूर्वा. 11.00 बजे 1252 / 598 / 389 और 1276 / 390, खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट ₹ 0.25 लाख से दोपहर 12.00 बजे की धारा 13(2) के अंतर्गत गारंटर्सः आबादी वेस्ट रोहतास नगर, गाँव जारी नोटिस के अनुसार 1) श्री दिलीप चुरानियां उल्धनपुर, ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110032, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, यह 2) श्रीमती पूनम चुरानियां 14-01-2015 सम्पत्ति श्री दिलीप चुरानियां के नाम पर है। दोनों निवासी का पता रिहायशी फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 1/9506, Rs. 4,34,94,573.00 ₹ 80.00 लाख 16-06-2017 प्लॉट नं. 44, द्वितीय तल, खसरा नं. 1252 और भविष्य का ब्याज एवं ₹ 8.00 लाख को पर्वा. 11.00 बजे खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट / 598 / 389 और 1276 / 390, साथ में ₹ 0.25 लाख से दोपहर 12.00 बजे की धारा 13(2) के अंतर्गत छत और टैरेस, आबादी वेस्ट रोहतास नगर, जारी नोटिस के अनुसार गाँव उल्धनपुर, ईलाका, शाहदरा, दिल्ली -14-01-2015 110032, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती पूनम चुरानियां के नाम पर है। रिहायशी फ्री होल्ड सम्पत्ति जिसका फ्लैट ₹ 32.00 लाख Rs. 4,34,94,573.00 16-06-2017 प्राईवेट. नं. जी-2, भूतल, 1/9507 का और भविष्य का ब्याज एवं ₹ 3.20 लाख भाग, प्लॉट नं. 38, खसरा नं. 598 /389 खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट को पूर्वा. 11.00 बजे का भाग, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, आबादी वेस्ट ₹ 0.25 लाख की धारा 13(2) के अंतर्गत से दोपहर 12.00 बजे रोहतास नगर गाँव क्षेत्र में, गाँव उल्धनपुर जारी नोटिस के अनुसार गली नं. ८, ईलाका शाहदरा, दिल्ली -14-01-2015 110032 यह सम्पत्ति श्री दिलीप चुरानियां

और श्रीमती पूनम चुरानियां के नाम पर है। सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय : 07.06.2017 को पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे के बीच धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 13.06.2017 नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

ई-नीलामी विकी के निवम एवं शर्ते

यह बिक्री निम्न नियमों एवं ज्ञतों के अधीन होगी।

नीलामी-सह-बिक्की का आयोजन https://www.bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धत्ति हारा होगी।

यहां ऊपर अनुसुची में प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रृटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शतों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त

वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मुल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मुल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेन्टल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, में 13.08.2017 के 5.00 बजे अप. या पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा- खाता का नाम- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बढ़ौदा, एआरएम शाखा, नई दिल्ली, खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोड: BARB '0' CONNAU (जहां '0' शून्य है।)

ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्इस के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 13.06.2017 को या उससे पूर्व निम्न दस्तावेजों को अपलोड

क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण

ख) भारत सरकार द्वारा जारी इच्छक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया

ग) इच्छुक बोलीदाताओं का मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल का पता

 घ) ईएमडी के रिफंड के लिए इच्छुक बोलीदाता के बैंक खाता का विवरण छ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध

इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बना सकते हैं। यदि लागिन आईडी, पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैं, ई-प्रॉक्योमेंन्ट टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., श्री रिकिन ब्रह्म क्षत्रिय, मो. नं. +91-9978591888, ई-मेल आईडी: rikin@auctiontiger.net श्री विशाल तिवारी, मो. नं. +91-9879996111, ई-मेल आईडी: vishal@auctiontiger.net, श्री कुशल कोठारी, मोबाईल नं. +91-8980690773, ई-मेल आईडी- kushal@auctiontiger.net, लैण्डलाइन नं 079-40230833/806/827/831/832/817, support नं. 079-40230816/817/818/819/820, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें तथा सम्पत्ति-संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए आप बैंक

ऑफ बड़ौदा, परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, टेली. नं. 011-23448840, मोबाईल- 9560090629, ई-मेलः armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये विना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रह या स्थगित या डिस्कंटीन्यु करने अथवा नीलामी की शतों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।

10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मृल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भूगतान करना होगा, अन्यथा ईएमढी राशि जब्त कर ली जाएगी।

11. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभृत केडीटर की 12. यहां ऊपर क्रम सं. 11 के अनुसार राशि के भूगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मुल्य का भूगतान करना

होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 13. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋगधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता

है तो कोई विक्री नहीं की जाएगी।

14. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा। 15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।

यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।

16. बैंक ने उसे जात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी वकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देवताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।

17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकरिमकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। 18. बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वंय के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से वर्चे। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चुक (पावर

फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैंक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकरिमकताओं से बच सकें तथा सफलतापुर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) हारा निर्गत नए इंटरपेरैबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 15 दिनों की साविधिक बिक्री सूचना एतदुद्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सुचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ विक्री

कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋगधारकों/ गारंटरों से व्याज तथा लागत के साथ वसल किया जाएगा।

हस्ताक्षर/- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा दिनांक : 27.05.2017, स्थान : नई दिल्ली

इलाहाबाद बेक विश्वास की परंपरा

Place: Delhi

Dated: 27.05.2017

ALLAHABAD BANK A tradition of trust

शाखाः वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012, फोनः 0120-2882472, 2882630

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति (हित) प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 27.02.2017 कर ऋणधारक श्री विनोद बजाज, पत्र श्री मदन लाल बजाज एवं श्रीमती पुजा बजाज पत्नी श्री विनोद बजाज को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 15,91,589.00 (रुपए पन्द्रह लाख इक्यानवे हजार पांच सौ नवासी मात्र) तथा लागत, चार्जेज एवं खर्चे के साथ 01.02.2017 से देय ब्याज की राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज दिनांक 22 मई,

2017 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। ⁻ विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों

का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 15,91,589.00/- (रुपए पन्द्रह लाख इक्यानवे हजार पांच सौ नवासी मात्र) के साथ 01.02.2017 से देय ब्याज तथा लागत, चार्जेज, खर्चे के लिए इलाहाबाद बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अधोलिखित से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

व्यावसायिक-सह-आवासीय सम्पत्ति (कार्यालय-सह-गोदाम), क्षेत्रफल 136.83 वर्ग मी. जो श्री विनोद बजाज एवं श्रीमती पूजा बजाज के नाम में है-मकान सं. 38, धरम वाटिका, चौधरी मोर, सेक्टर नं. 1, अम्बेदकर, रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.) चौहद्दी इस प्रकार है:

पूर्व: सर्विस लेन; पश्चिम: मुख्य दरवाजा एवं सड़क 30 फीट, जीडीए पार्क; उत्तर: एच. नं. 39; दक्षिण: एच नं. 37

प्राधिकत अधिकारी इलाहाबाद बैंक, वसुन्धरा, गाजियाबाद

MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Off.: SD-65, Tower Apartment, Pitampura, New Delhi-110034 CIN: L67120DL1981PLC179487, Ph: 011-27314646, Fax: 011-27315115 Website: www.maxheights.com, E-mail ID: info@maxheights.com

EXTRACT OF STANDALONE/CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

	STANDALONE			CONSOLIDATED		
Particulars	Quarter ended 31.03.2017 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2016 (Audited)	Quarter ended 31.03.2017 (Audited	Year ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2016 (Audited)
Total income from operations (net)	256.80	418.09	319.57	1883.81	4213.83	1519.33
Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax (before and after extra ordinary/exceptional items)	55.88	67.84	(4.93)	111.11	192.77	3,66
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (after extra ordinary/exceptional items)	35.33	47.29	(30.34)	50.79	132.45	(44.69)
Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss)] for the period (after tax) & other comprehensive income (after tax)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity Share Capital	1560.92	1560.92	1560.92	1560.92	1560.92	1560.92
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	1169.12	0.00	0.00	1169.12	0.00
Earnings Per Share (from continuing operation) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)*						
Basic:	0.23	0.30	0.00	0.23	0.30	0.00
Diluted:	0.23	0.30	0.00	0.23	0.30	0.00

*Paid up Equity Share Capital & Earning Per Share provided above relates only to Max Heights Infrastructure Limited Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Year ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Year ended Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz (www.bseindia.com) and company's website viz www.maxheights.com

For Max Heights Infrastructure Limited

Naveen Narang Managing Director & CFO DIN:00095708

मैनचेस्टर हमला: दो और गिरफ्तार

लंदन, 27 मई (भाषा)।

ब्रिटेन की पुलिस ने मैनचेस्टर में एक पॉप करसर्ट में आत्मघाती विस्फोट के संबंध में शनिवार को दो और गिरफ्तारियां की।

इसके साथ ही हिरासत में लिए जाने वाले संदिग्धों की संख्या 11 पहुंच गई है। इस हमले में 22 लोग मारे गए हैं।

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (जीएमपी) ने कहा कि अधिकारी शनिवार सुबह चीथम हिल में एक मकान में विस्फोटक यंत्र लगाकर घसे। इसके बाद आतंकवादी अपराधों के संदेह में 20 और 22 साल के दो व्यक्तियों को पकडा गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी जांच में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से दो लोगों को बगैर किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। मैनचेस्टर एरेना में अमेरिकी गायिका अरियाना ग्रांडे का शो खत्म होते ही सोमवार रात को हए आत्मघाती विस्फोट के संबंध में 11 व्यक्ति अब भी हिरासत में है। हिरासत में लिए गए लोगों की उम्र 18 से 39 के बीच है। पुलिस ने शुक्रवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें से एक को मॉस साइड और दूसरे को रशहोम से गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों में हमलावर के रिश्तेदार भी हैं। 34 वर्षीय महिला और 16 वर्षीय लड़के को बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि मैनचेस्टर में जन्मा 22 वर्षीय आत्मघाती हमलावर सलमान आबेदी के तार एक आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और उनका ध्यान उसके नेटवर्क का पता लगाना है। आबेदी का परिवार मुल रूप से लीबिया से है।

खबरों के मुताबिक आबेदी ब्रिटेन की सुरक्षा सेवाओं के लिए जाना पहचाना नाम था लेकिन लोगों को उससे होने वाला खतरा 'जांच का विषय' था। पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने हमले से जुड़े नेटवर्क के बड़े हिस्से का पता लगा लिया है। मेट्रोपोलिटन पुलिस सर्विस में विशेष अभियानों के सहायक आयुक्त मार्क राउली ने कहा कि जांचकर्ताओं में जांच में 'काफी प्रगति' की है लेकिन अब भी कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं की जांच की जानी है।

नींद में खलल डाल रहा है जलवायु परिवर्तन

लॉस एंजिलिस, 27 मई (भाषा)।

जलवायु परिवर्तन के कारण रात में तापमान सामान्य से अधिक रहने का मनुष्य की नींद पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और एक नए शोध में कहा गया है कि सदी के अंत तक संभवतः पृथ्वी पर लोग नींद कम आने की समस्या से जूझ रहे होंगे।

नासा अर्थ एक्सचेंज की ओर से जारी 2050 और 2099 के जलवायु पूर्वानुमानों का प्रयोग कर अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि यदि रातें गर्म हो गईं और उससे नींद की कमी जारी रही तो भविष्य बहुत धूमिल सा है।

(CIN:U65922RJ2011PLC034297)

Place: New Delhi

Date: 27th May 2017

🛕 ७ ४० ४० अ अ वास फाई ने सियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाई नेस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात)

रजि. & कॉर्पोरेट ऑफिसः 201-202, दूसरी मॅजिल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्टियल एरिया, जयपुर - 302020

निविदा सूचना

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ''वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 व प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 व 9 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा लिये जाने के पश्चात उक्त सम्पत्ति को ''जो है, जैसी है, जहाँ है '' के आधार पर निविदा द्वारा बेचने का निर्णय लिया है:-

ऋणी/जमानती/ बंधक कर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक 17-05-17 तक	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	संपत्ति का विवरण (प्रतिभूत आस्ति)	आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि 10%	निविदा खोले जाने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान
मोहित बंसल, कामाक्षी गारंटरः योगेश बंसल A/C No. LNDEL00314-150012890	₹ 29,12,230/- + व्याज व खर्च पूर्णभुगतान तक लागू ।	8/07/16 ₹ 23,46,092/-	73, द्वितीय तल, मैन बाजार, सब्जी मण्डी, दिल्ली, क्षेत्रफल 58 वर्गगज	₹ 18,70,000/- ₹ 1,87,000/-	15-06-17, दोपहर 12.15 बजे से	आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) फ्लैट नं 701, विक्रम टॉवर बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-1100008
राज सिंह, रत्ना सिंह, गारंटरः समीर तोमर (A/c No. LNGGN02115-160018966 के लिए) A/C No. LNGGN02115-160018966 A/C No. LNGGN01815-160022098	₹ 38,71,492/- & ₹ 10,54,328/- + ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान तक लागू।	14/05/16 ₹ 31,82,111/- & ₹ 7,96,365/-	म.नं. 153 ए/2, तृतीय तल, खसरा नं. 26/25/1, दाबरी एक्स. पालम रोड, दिल्ली क्षेत्रफल 110 वर्गगज	₹ 30,00,000/-	15-06-17, दोपहर 12.15 बजे से	आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेर लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) फ्लैट नं 701, विक्रम टॉवर बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-1100008

निविदा की शर्ते :

1. निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा शाखा में उपलब्ध निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय शाखा से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मुल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि के बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि प्राधिकत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के पक्ष में जयपुर में देय हो, नीलामी से पहले कार्य दिवस के दौरान आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के उपरोक्त पते पर जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐ आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है।यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी

2. सफल निविदाकर्ता को 2.5 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष

राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 1 5 दिन के अन्दर, जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना बैंक में जब्त समझी जायेगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या निविदा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी।

4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छ्क निविदाकर्ता, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेस लिमिटेड" के नाम

से ज्ञात) फ्लैट नं. 701, विक्रम टॉवर, बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008. सहायतार्थ संपर्क करें 8130291423. नोट:– यह सुचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 9(1) के अधीन 1 5 दिवस का सुचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाऐगी।

स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड



दिनाकः 27.05.2017

